

# UP Board Notes Class 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत

## Chapter 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन Bhautik Bhugol Ke Mool Siddhant

अध्याय - 12  
विश्व की जलवायु

जलवायु :-

हमारा जीवन और हमारी आर्थिक क्रियाएं ( जैसे- कृषि , व्यापार , उद्योग आदि ) सभी जलवायु से प्रभावित और कभी - कभी नियंत्रित भी होती है ।

जलवायु का सबसे पहला वर्गीकरण यूनानियों ने किया था ।

जलवायु वर्गीकरण के तीन आधार हैं

1. आनुभविक ( empirical )
2. जननिक Genetic
3. व्यवहारिक Applied या क्रियात्मक ।

जलवायु लम्बे समय ( कम से कम 30 वर्ष ) की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य अथवा औसत है ।

भूमध्य सागरीय जलवायु ( Cs )  $30^{\circ}$  से  $40^{\circ}$  अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंध तक महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ - साथ पाई जाती है ।

कोपेन का जलवायु वर्गीकरण :-

कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ( 1918 ) जननिक और आनुभविक है । कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण तापमान तथा वर्षण के आधार पर किया । थार्नरेट ने वर्षण प्रभाविता , तापीय दक्षता और संभाव्य ताप्तोत्सर्जन को अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार बनाया ।

कोपेन ने वनस्पति के वितरण तथा जलवायु मध्य एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की । उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया ।

कोपेन के अनुसार जलवायु समूह :-

- A. शुष्क
- B. कोष्ण शीतोष्ण
- C. शीतल हिम - वन
- D. शीत
- E. उष्ण कटिबन्धीय आद्र

## F. उच्च भूमि

कोपेन ने बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए किया। सन् 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है।

कोपेन ने पाँच प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से चार तापमान पर तथा एक वर्षण पर आधारित हैं।

### कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार

	समूह	प्रकार	कूट अक्षर	लक्षण
1.	A उष्णकटिबंधीय आर्द्ध जलवायु	उष्णकटिबंधीय आर्द्ध उष्णकटिबंधीय मानसून उष्णकटिबंधीय आर्द्ध एवं शुष्क	Af Am Aw	कोई शुष्क ऋतु नहीं। मानसून, लघु शुष्क ऋतु जाड़े की शुष्क ऋतु
2.	B शुष्क जलवायु	उपोष्ण कटिबंधीय स्पैषी उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मध्य अक्षांशीय स्टैषी मध्य अक्षांशीय मरुस्थल	BSh BWh BSK BWk	निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क निम्न अक्षांशीय शुष्क मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क मध्य अक्षांशीय शुष्क
3.	C कोष्ण शीतोष्ण (मध्य अक्षांशीय जलवायु)	आर्द्ध उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय समुद्री पश्चिम तटीय	Cfa Csa Cfb	मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क अथवा शुष्क शुष्क गर्म ग्रीष्म कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म
4.	D शीतल हिम-वन जलवायु	आर्द्ध महाद्वीपीय उप-उत्तर ध्रुवीय	Df Dw	कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण
5.	E शीत जलवायु	दुङ्गा ध्रुवीय हिमटोपी	ET EF	सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं सदैव हिमाच्छादित हिम
6.	F उच्च भूमि	उच्च भूमि	H	हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ

कोपेन ने बड़े अक्षर A, C, D तथा E से आर्द्ध जलवायु को और अक्षर B से शुष्क जलवायु को निरूपित किया है। जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई छोटी - छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया है तथा छोटे अक्षरों के माध्यम से अभिहित किया गया है।

कोपेन के उष्ण कटिबंधीय जलवायु को तीन प्रकारों में बाँटा जाता है, जिनके नाम हैं :-

- i . Af उष्ण कटिबंधीय आर्द्ध जलवायु
- ii . Am उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु
- iii . Aw उष्ण कटिबंधीय आर्द्ध जलवायु, जिसमें थीत ऋतु शुष्क होती है।

( Am ) उष्ण कटिबंधीय मानसून, लघु शुष्क ऋतु :-

ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा करती हैं।

थीत ऋतु प्रायः शुष्क होती है।

यह जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरीका के उत्तर - पूर्वी भाग तथा उत्तरी आस्ट्रेलिया में पाई जाती है।

( Aw ) ए डब्ल्यू उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र एंव थुर्षक जलवायु :-

इस प्रकार की जलवायु में वर्षा बहुत कम होती है ।  
इस जलवायु में थुर्षक ऋतु लम्बी एंव कठोर होती है ।  
थुर्षक ऋतु में प्रायः अकाल पड़ जाता है ।  
इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन तथा पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती हैं ।

उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु :-

उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत के निकट पाई जाती है । इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का आमेजन बेसिन , पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप हैं । वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है ।

विषुवतीय प्रदेश में तापमान समान रूप से ऊँचा तथा वार्षिक तापांतर नगण्य होता है । किसी भी दिन ज्यादातर तापमान  $30^{\circ}$  सेल्सियस और न्यूनतम तापमान  $20^{\circ}$  सेल्सियस होता है ।

उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु :-

उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप , दक्षिण अमेरिका के उत्तर - पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है । भारी वर्षा ज्यादातर गर्मियों में ही होती है । शीत ऋतु थुर्षक होती है ।

थुर्षक जलवायु :-

थुर्षक जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों के विकास हेतु काफ़ी नहीं होती । यह जलवायु पृथकी के बहुत बड़े भाग पर मिलती है जो विषुवत वृत से  $15^{\circ}$  से  $60^{\circ}$  उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है ।

मठस्थलीय जलवायु :-

अधिकतर उष्ण कटिबंधीय वास्तविक मठस्थल दोनों गोलाछ्द में  $15^{\circ}$  तथा  $60^{\circ}$  अक्षांशों के मध्य विस्तृत हैं ।

गर्म मठस्थलों में औसत तापमान  $38^{\circ}$  होता है ।

मठस्थलों में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है ।

उच्च तापमान और वर्षा की कमी के कारण वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है ।

चीन तुल्य जलवायु :-

यह जलवायु दोनों गोलाछ्दों में  $25^{\circ}$  तथा  $45^{\circ}$  अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है ।

वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर है । ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है ।

यहाँ ग्रीष्म और शीत क्रतु दोनों ही होती हैं। तापमान ऊँचे रहते हैं। सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 27 सेंटीग्रेड हो जाता है। वैसे शीत क्रतु मृदुल होती है। परन्तु कभी - कभी पाला भी पड़ जाता है।

इस प्रदेश में चौड़ी पत्ती वाले तथा कोण धारी मिश्रित वन पाए जाते हैं।

### टैगा जलवायु :-

यह जलवायु वर्ग के बहुत उत्तरी गोलार्द्ध में 50 से 70 ° उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तारित है। यह जलवायु उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर न्यूफांडलैण्ड तक तथा यूरोपिया में स्कैंडिनेविया से लेकर साइबेरिया के पूर्वीछोर में कमचटका प्रायद्वीप तक पायी जाती है। इस जलवायु में ग्रीष्म क्रतु छोटी एवं शीतल होती है तथा शीत क्रतु लम्बी व कड़ाके की सर्दी वाली होती है।।

वर्षण की क्रिया ग्रीष्म क्रतु होती है।

### टुंड्रा जलवायु :-

यह जलवायु वर्ग के बहुत उत्तरी गोलार्द्ध में 60 से 75 ° उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तरित है।

यह जलवायु उत्तरी अमेरिका और यूरोपिया की आर्कटिक तटीय पट्टी में ग्रीन लैण्ड और आइसलैण्ड के हिम रहित तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है।

यहाँ ग्रीष्म क्रतु छोटी सामान्यतः मृदुल होती है सामान्यतः तापमान 10 ° डिग्री सेलसियस से कम होती है।

यहाँ साल भर हिमपात होता रहता है।


### ग्रीन हाउस प्रभाव :-

पृथकी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से पृथकी तक पहुँचने वाली विकिरण को सूर्यतिप कहते हैं अर्थात् सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यतिप कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। इसका बहुत सा भाग भूतल द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पृथकी का वायुमण्डल सूर्यतिप की विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाली किरणों के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। वायुमण्डल में उपस्थित कुछ गैसों तथा जलवाष्प भूतल में परिवर्तित दीर्घ तरंगों के 90 प्रतिशत भागों का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार वायुमण्डल को गर्म करने का मुख्य स्रोत दीर्घतरंगों अर्थात् पार्थिव विकिरण है। इस दृष्टि से वायुमण्डल ग्रीन हाउस अथवा मोटर वाहन के शीशे की भाँति व्यवहार करता है। यह सूर्य से आने वाली लघु किरणों को बीच से गुजरने देता है, परन्तु बाहर जाने वाली दीर्घ किरणों का अवशोषण कर लेता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।

प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों निम्नलिखित हैं :-


- ( 1 ) कार्बन डाइऑक्साइड ( CO<sub>2</sub> )
  - ( 2 ) क्लोरो - फ्लोरो कार्बन ( CFCs )
  - ( 3 ) मीथेन ( CH<sub>4</sub> )
  - ( 4 ) नाइट्रोजन ऑक्साइड ( N<sub>2</sub>O )
  - ( 5 ) ओजोन ( O<sub>3</sub> )
- अन्य - नाइट्रिक ऑक्साइड ( NO ), कार्बन मोनो ऑक्साइड CO

लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण (सूर्य का प्रकाश)



दीर्घ तरंगों के रूप में पार्थिव किरण (पृथ्वी की ऊष्मा ऊर्जा)

कार्बन-डाई-आक्साइड की सामान्य मात्रा



## ग्रीन हाउस प्रभाव

भूमण्डलीय तापन :-

ग्रीन हाउस प्रभाव से विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमण्डलीय तापन या उष्णन कहते हैं। भूमण्डलीय उष्णन वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण होता है।

भूमण्डलीय तापन के प्रभाव :-

भूमण्डलीय तापन के निम्नलिखित प्रभाव है :-

- ( 1 ) ध्रुवीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों की सारी बर्फ पिघल जाएगी।
- ( 2 ) समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, इससे अनेक तटवर्ती क्षेत्र जल मग्न हो जाएंगे। जैसे मुंबई, ढाका, मालदीव आदि।
- ( 3 ) समुद्र का खाद्य पानी धरती के मीठे पानी को खराब कर देगा।
- ( 4 ) पर्वतों की हिमानियों के पिघलने से नदियों में बाढ़ आ जाएगी।

विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारणों की विवेचना :-

जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं जिन्हें खगोलीय, पार्थिव तथा मानवीय जैसे तीन वर्गों में बाँटा जाता है :

( 1 ) खगोलीय कारण : - खगोलीय कारणों का सम्बन्ध सौर कलंको से उत्पन्न सौर ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर पाए जाने वाले काले धब्बे हैं, जो चक्रीय क्रम में घटते व बढ़ते रहते हैं सौर कलंको की संख्या बढ़ती है। इसके विपरीत जब सौर कलंको की संख्या घटती है तो मौसम उष्ण हो जाता है। एक अन्य खगोलीय सिद्धान्त मिलैकोविच दोलन है जो सूर्य के चारों ओर पृथकी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त सूर्यतिप में परिवर्तन ला देते हैं जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है।

( 2 ) पार्थिव कारण : - पार्थिव कारणों में ज्वालामुखी उदगार जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। जब ज्वालामुखी फटता है तो बड़ी मात्रा में एटोसेल वायुमण्डल में प्रवेश करते हैं। ये एटोसेल लम्बी अवधि तक वायुमण्डल में सक्रिय रहते हैं और सूर्य से आने वाली किरणों में बाधा बनकर सौर्यिक विकिरण को कम कर देते हैं। इससे मौसम ठण्डा हो जाता है।

( 3 ) मानवीय कारण : - इनमें से कुछ परिवर्तन मानव की अवांछित गतिविधिओं का परिणाम है। इन्हें मानव प्रयास से कम किया जा सकता है। भू - मण्डलीय ऊष्मन एक ऐसा ही परिवर्तन है, जो मानव द्वारा लगातार और अधिकाधिक मात्रा में कार्बनडाईआक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाऊस गैसें जैसे मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन वायुमण्डल में पहुँचाए जाने से उत्पन्न हुआ है।